



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 673) पटना, सोमवार, 15 जून 2015

उद्योग विभाग

अधिसूचना

9 जून 2015

सं0 1/उ०नि० नियमावली—(लि०सं०)—01/2007—2252—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उद्योग विभाग के उद्योग निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों (जिला उद्योग केन्द्रों/उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना) में लिपिकों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के लिए बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :—

- संक्षिप्त, नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2015 कही जा सकेगी।
(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली, 2007 के नियम 6(ख) में प्रयुक्त अंक एवं शब्द “5% पद” शब्द एवं अंक “10% पद” द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे।
- उक्त नियमावली 2007 के नियम 6 (ङ) में प्रयुक्त शब्द “मैट्रिक” शब्द “इन्टरमीडियट” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 9th June 2015

No. 1/उ०नि० नियमावली—(लि०सं०)—01/2007—2252—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Industries Regional Clerical Cadre Rules, 2007 framed for the recruitment, promotion and other service conditions of the Clerks in the different field offices (District Industries Centres/ Upendra Maharathi Shilpa Anusandhan Sansthan, Patna) of Industries Directorate, Department of Industries, Bihar, Patna:-

1. Short title extent and commencement.—(1) These rules may be called the Bihar Industries Regional Clerical Cadre (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State Of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. The word and figure "5% posts" used in sub-rule (b) of Rule 6 of Rules, 2007, shall be substituted by the word and figure "10% posts".

3. The word "Matric" used in sub-rule (e) of Rule 6 of Rules, 2007, shall be substituted by the word "intermediate".

By order of the Governor of Bihar,

Sd./Illegible,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 673-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>